

जापान में उद्योग (INDUSTRIES IN JAPAN)

बोलेंद्र कुमार अगम,
सहायक प्राध्यापक, भूगोल,
राजा सिंह महाविद्यालय, सिवान


जापान की औद्योगिक पटी (Industrial Region / Belt of Japan)

जापान के उद्योगपति क्यूशू द्वीप के नागासाकी नगर से टोक्यो नगर तक दक्षिण पूर्वी तट के सहारे विस्तृत है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है और इसमें जापान के अधिकांश उद्योग अर्थात् 93% उद्योग धंधे विस्तृत है। इसमें जापान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। मजदूरों का 64% भाग उद्योग धंधों में संलग्न है। इन्हीं में जापान के बड़े-बड़े नगर भी स्थित हैं। यह भाग बहुत ही विकसित है। इसमें परिवहन के साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है। कच्चे माल तथा तैयार माल के आयात और निर्यात की सुविधा है। क्षेत्र में सस्ती जलविद्युत भी प्राप्त हो जाती है। पटी के दक्षिणी भाग में कोयला क्षेत्र भी स्थित है। जापान के प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, लोहा और इस्पात, जलयान, रासायनिक पदार्थ, कागज, सीमेंट, खिलौना तथा कांच का सामान इसी पटी में स्थित है।

जापान के प्रमुख औद्योगिक पटी निम्नलिखित हैं:

1. टोक्यो - याकोहामा प्रदेश
2. कोबे - ओसाका प्रदेश
3. नागोया प्रदेश

4. नागासाकी - मौजी प्रदेश
5. दक्षिणी होकैडो प्रदेश




टोक्यो - याकोहामा प्रदेश

यह जापान के पूर्वी तट पर सागामी खाड़ी के पास स्थित है। यह प्रदेश क्वांटो मैदान में स्थित है जिसके कारण यहां सस्ते मजदूर, परिवहन के सस्ते साधन तथा कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है। यहां रेशम उद्योग की पर्याप्त उन्नति हुई है।

प्रमुख उद्योग: लोहा इस्पात, हल्की वस्तुएं, दैनिक प्रयोग का सामान, विद्युत उपकरण, सूती वस्त्र, नकली रेशम, मशीन, चमड़ा, खिलौना, रसायनिक पदार्थ, रबर, घड़ियां, कागज उद्योग आदि।

प्रमुख केंद्र: टोक्यो, याकोहामा, आहीटो, शिमासू, ओदावारा, मीनाटे, चोशी, कटसुरा आदि।

यह क्षेत्र ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र में स्थित है अतः यहां बड़े उद्योगों की बजाए छोटे-छोटे उद्योगों को विकसित किया गया है।



कोबे - ओसाका प्रदेश


यह जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। कुल औद्योगिक उत्पादन का 33% यहीं से मिलता है। इस प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक विकसित अवस्था में है। ओसाका सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है जिसे जापान का मैनचेस्टर/पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है।

प्रमुख केंद्र: कोबे, ओसाका, हिमेजी, नारा, सिकाई वाकायामा, टकाना

प्रमुख उद्योग: जलयान निर्माण, दियासलाई, रबड़ की वस्तुएं, सीमेंट आदि

क्यूटो में मुख्या रूप से ऊनी वस्त्र तथा कला कौशल की वस्तुएं बनाई जाती हैं।

ओसाका में मुख्या रूप से सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, छोटी-बड़ी मशीनें, लोहा एवं इस्पात आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं।




नागोया प्रदेश

यह प्रदेश नोबी मैदान का मुख्य प्रदेश है तथा उबारी की खाड़ी के तटीय भाग में स्थित है। यहां की विशिष्टता ऊनी वस्तुओं का उत्पादन है।

प्रमुख उद्योग: ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, बर्तन बनाना, रसायनिक पदार्थ बनाना आदि


प्रमुख केंद्र: नागोया, हमामात्सू, कवाना, गीफू, तशू टेकेटोयो, तोयोहासी आदि



नागासाकी - मौजी प्रदेश

क्यूशू द्वीप के उत्तरी भाग में नागासाकी - मौजी प्रदेश का विकास हुआ है। यहां कच्चे माल मंचूरिया से लोहा तथा चीकूजे तथा मिजे की खानों से कोयला आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसी कारण यहां पर लोहा इस्पात उद्योग अधिक विकसित है।

प्रमुख केंद्र: नागासाकी, यावता, सासेव, करात्सू, फुकोका, मौजी, ओमुटा, कुमामोटु, नकातासु आदि
यावत लोहा इस्पात और जलयान निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। नागासाकी दूसरा बड़ा केंद्र है।




प्रमुख उत्पाद: जलयान, वायुयान, रेलवे इंजन, डिब्बे, बड़ी-बड़ी मशीन, पुर्जे, परिवहन उपकरण, कृषि यंत्र, इस्पात पिंड आदि

अन्य उद्योग: कांच का सामान, रासायनिक पदार्थ, सीमेंट, कागज, तेल शोधन आदि

दक्षिणी होकैडो प्रदेश

यह जापान के सबसे उत्तर में होकैडो द्वीप पर स्थित प्रदेश है। या होकैडो द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है।

प्रमुख केंद्र: मुरारा, ओटारू, सपारो, शुटेशु, हैन्कोडेट



प्रमुख उत्पाद: लोहा एवं इस्पात, कागज, लुगदी, रासायनिक पदार्थ, सीमेंट आदि
मत्स्य उद्योग यहाँ का प्राचीन उद्योग और व्यवसाय है।

इस प्रकार का स्पष्ट है कि जापान अपने सीमित संसाधनों के बदौलत भी पूरे विश्व का एक औद्योगिक महाशक्ति के रूप में उभरा है जिसका प्रमुख कारण यहां के लोगों की मेहनत और तकनीकी दक्षता है।

- सन्दर्भ: एशिया का भूगोल (एस बी पी डी : चतुर्भुज ममोरिया), इन्टरनेट
- सभी चित्र - एस बी पी डी : चतुर्भुज ममोरिया